



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Indira Gandhi Vidhan Bhawan,

Arera Hills, Bhopal (M.P.)

स मा चार

राज्य सभा की रिक्त सीट के लिए उप निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ निर्वाचन की अधिसूचना जारी

भोपाल, 15 सितम्बर, 2021

मध्यप्रदेश से राज्य सभा के लिए रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन की अधिसूचना आज विधान सभा द्वारा जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। आयोग द्वारा इस निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग आफिसर एवं अपर सचिव श्री बी.डी. सिंह को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। विधान सभा भोपाल, समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम 02) को मतदान स्थल हेतु अधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश से राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य श्री थावरचन्द्र गहलोत के त्याग-पत्र देने के कारण राज्य सभा के एक स्थान की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन होना है।

राज्य सभा की एक रिक्त सीट के लिए उप निर्वाचन की प्रक्रिया 15 सितम्बर, 2021 से आरम्भ होकर दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 तक चलेगी। इस अवधि में दिनांक 15 से 22 सितम्बर, 2021 में प्रतिदिन (लोक अवकाश के दिन छोड़कर) पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक नामांकन पत्र विधान सभा स्थिति कार्यालय, रिटर्निंग आफिसर राज्य सभा उप निर्वाचन 2021 समिति कक्ष क्रमांक-2 में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह 2:00 बजे से की जायेगी। नाम वापसी की लिए दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक का समय निर्धारित है, आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक होगा, तत्पश्चात् मतगणना सम्पन्न होगी।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव

दूरभाष : जनसंपर्क शाखा: (+91-755) 2523065, 2523028, 2440221 फ़ैक्स: (+91-755) 2440238

ई-मेल : vidhansabha-mp@nic.in वेबसाइट : <http://www.mpvidhansabha.nic.in>